

November 9, 2024

Scrip Code - 530517	Symbol – RELAXO
Dalal Street, Mumbai – 400 001	Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block G,
BSE Ltd. Corporate Relationship Department	National Stock Exchange of India Ltd Listing Department,

Sub: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2024

Dear Madam / Sir,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2024 published in Economics Times (Mumbai and Delhi – English Edition) and Navbharat Times (Delhi – Hindi Edition) on November 9, 2024.

The same is for your information and record please.

Thanking You,

For Relaxo Footwears Limited,

Ankit Jain Company Secretary & Compliance Officer

Encl. as stated above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700 Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



Take 'Final Decisive Call' on Royalty Computation on Minerals: SC to Centre



New Delhi: The Supreme Court has asked the government to take a "final decisive call" on the cascading impact of royalty on royalty in the computation of the "average sale price" under Mineral (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and the Mineral Conservation and Development Rules,

Even as it reiterated that the issues concerning computation of royalty levied on minerals is entirely a policy aspect and beyond the expertise of the courts, a Bench led by Chief Justice DY Chandrachud gave the government two months to conclude the public consultation process undertaken for amending the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 for removing the anomaly regarding computation of royalty relating to iron ore and other minerals.

It said that once the government had itself initiated a public consultation process for amending the Act to address the anomaly, then it must take a prompt decision in this regard. "Merely because it has the discretion to take such policy decision does not mean that it can endlessly keep on prolonging the decision-making process whereby the very discretion is rendered ad-lib and the issue in itself a forgone conclusion," the judgment stated.

Although, the computation of royalty for different minerals is purely a matter of policy yet we should not just shut our eyes to the prima-facie anomaly that exists both in the very computation mechanism of average sale price for minerals in terms of the these provisions and the perplexing stance of exclusion of only coal from such mechanism despite the general nature and application of these rules, it added.

The SC also directed that the matter be listed again after two months to report on compliance with its directions. The SC was hearing an appeal filed by Kirloskar Ferro-

us Industries and others challenging the validity of the validity of Explanation to Rule 38 of the Mineral (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and Explanation to Rule 45(8)(a) of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 that stipulates computation of royalty to be levied for extraction or consumption of mined ores.

Kirloskar Ferrous, engaged in pig iron extraction from Karnataka iron ore mines, argued that after explanations to Rule 38 and Rule 45 were added, royalty which had already been paid in the previous month was again being factored for computation of royalty to be paid for the subsequent months. Thus, this "compounding" of royalty was "manifestly arbitrary" in as much as it has led to a cascading effect within the fold of determination of the rate of royalty under the 1957 Act, senior counsel AM

Singhviargued on behalf of the company The miners further contended that when it came to computation of royalty in respect of coal, the government had remedied the anomaly by excluding the previously paid royalty and contributions towards District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust in its calculation, by way of an amendment.

Supply 2.5L MT of Iron Ore Per **Annum to Sunflag: HC to Govt**

New Delhi: The Delhi High Court on Friday directed the government to provide with immediate effect "continuous and uninterrupted supply" of 250,000 metric tonnes of iron ore per annum to steel manufacturer Sunflag Iron and Steel Co at the rate of 20,000 tonnes per month or, as per altered circumstances, for its integrated steel plant at Bhandara, Maharashtra, through appropriate

linkage as assured. Justice Sudhir Kumar Jain also asked Steel Authority of India (SAIL) to make continuous and uninterrupted supply with immediate effect as required by the company till the appropria-

te linkage is provided by the

Union government. While fixing the price of iron ore, the high court asked the government to consider the time lost and the investments made by the company

Setting aside the government's decision that rejected Sunflag Iron and Steel's application for grant of a prospecting licence in respect of Rowghat F, the co-

urt came down heavily on the government, saying "it is in the public interest that the promises made by any state or any or gan/entity of state including a public sector undertaking (PSU) should be kept especially when it is a beneficiary of such

Tesla Hits \$1 Trillion MCap

After Trump's victory in US polls, shares of Musk's EV co are on the rise

Reuters

Tesla's market value breached the \$1 trillion-mark in a sharp rally on Friday, on growing bets of a favorable treatment for CEO Elon Musk's companies in return for his support for President-elect

Donald Trump in his poll campaign. The electric automaker's shares rose more than 6% to a more than two-year high of \$315.56, after having gained 19.3% up to Thursday's close. The company crossed the \$1 trillion valuation for the first time in more than two years.

The billionaire could push for favorable regulation of autonomous vehicles that Tesla plans and also get the U.S. National Highway Traffic Safety Administration to hold off on potential enforcement actions involving the safety of Tes-



la's current driver-assistance systems, a

source had told Reuters. Musk has focused on self-driving vehicle technology, ditching plans to build an economy car priced at under \$30,000. However, development and regulatory

hurdles have delayed the commerciali-

zation of such technologies.
"Tesla and CEO Elon Musk are perhaps the biggest winners from the election result, and we believe Trump's victory will help expedite regulatory approval of the company's autonomous driving technology," said Garrett Nelson, senior equity analyst at CFRA Research

Tesla shares jumped in late October after the company reported a rise in quarterly profit margin, buoyed by sales of the highly profitable Full Self Driving driver assistance software.

It has been the world's most valuable automaker for years, with Japan's Toyota Motor, China BYD and others trailing

by several hundred billion dollars. Tesla shares trade 93.47 times its 12 month forward earnings estimates, compared with 38.57 for AI chip giant Nvidia, Microsoft's 30.77 and Ford's 6.29.

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbal, Maharashtra-400051, India Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: investorrelations@mswil.motherson.com, Website: www.mswil.motherson.com CIN - L 29306MH2020PL C341326

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

INR in Crores

Particulars		Three months ended				Year ended	
		30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	2,325.64	2,184.84	2,109.22	4,510.48	3,981.06	8,328.25	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	202.72	198.36	210.01	401.08	376.10	845.54	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	202.72	198.36	210.01	401.08	376.10	845.54	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	152.08	148.87	155.88	300.95	279.01	638.30	
Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}	149.97	144.44	156.16	294.41	273.46	633.66	
Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each)	442.11	442.11	442.11	442.11	442.11	442.11	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	and the second of	Company of		legil (dep		1,234.72	
Earnings Per Share (of Re. 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)	. 0.34	0.34	0.35	0.68	0.63	1.44	
	Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)} Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve)	Particulars 30.09.2024 (Unaudited) Total income from operations 2,325.64 Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items) 202.72 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) 202.72 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 152.08 Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)} Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each) 442.11 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	Particulars 30.09.2024 30.06.2024 (Unaudited) (Unaudited) Total income from operations 2,325.64 2,184.84 Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items) 202.72 198.36 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) 202.72 198.36 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 152.08 148.87 Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)} Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each) 442.11 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	Total income from operations 2,325.64 2,184.84 2,109.22 Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items) 202.72 198.36 210.01 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) 202.72 198.36 210.01 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 152.08 148.87 155.88 Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)} Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve)	Particulars 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.09.2024	Particulars 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)	

Place: Dubai

The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.mswil.motherson.com).

> By Order of the Board of Directors For Motherson Sumi Wiring India Limited

V. C. SEHGAL Chairman DIN No. :- 00291126

Date: November 08, 2024

Proud to be part of samvardhana motherson

RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMIT

Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692 CIN: L74899DL1984PLC019097

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

The second secon		1223		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(₹ in Crore)
	Quarter	Ended	Half Yea	r Ended	Year Ended
articulars	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Una	udited	1	Audited
Total Income from Operations	686.01	725.86	1439.63	1471.95	2942.92
Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	49.57	60.38	109.90	136.15	269.27
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	49.57	60.38	109.90	136.15	269.27
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	36.73	44.19	81.10	100.51	200.47
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	37.48	44.99	82.38	101.80	202.58
Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
Reserves excluding revaluation reserve					1976.22
Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)				51	in the second
Basic	1.48	1.78	3.26	4.04	8.05
Diluted	1.48	1.78	3.26	4.04	8.05
	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves excluding revaluation reserve Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹) Basic	Total Income from Operations Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves excluding revaluation reserve Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹) Basic 1.48	Total Income from Operations Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves excluding revaluation reserve Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹) Basic 1.48 1.78	articulars 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 Unaudited Total Income from Operations Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves excluding revaluation reserve Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹) Basic 1.48 1.78 3.26	articulars 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-Ramesh Kumar Dua Chairman & Managing Director DIN: 00157872

RELAXO FLITE

Delhi, November 8, 2024





LUPIN LIMITED

Registered Office: Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai 400 055. Corporate Identity Number: L24100MH1983PLC029442 Tel: (91-22) 6640 2323 • E-mail: info@lupin.com • Website: www.lupin.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

					-	₹ in millior
Par	ticulars	Quarter Ended 30/09/2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30/09/2023 (Unaudited)	Six Months Ended 30/09/2024 (Unaudited)	Six Months Ended 30/09/2023 (Unaudited)	Yea Ende 31/03/202 (Audited
1)	Total Revenue from operations	56,727.3	50,385.6	112,730.6	98,526.2	200,108.
2)	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional and/or extraordinary items)	10,548.6	6,296.7	20,478.9	11,884.6	24,222.
3)	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	10,548.6	6,296.7	20,478.9	11,884.6	24,222.
4)	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	8,526.3	4,896.7	16,539.4	9,419.3	19,144.
5)	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	9,066.4	5,128.3	16,587.4	9,321.2	19,551.
6)	Paid up equity share capital (Face value ₹ 2/- each)	912.3	910.5	912.3	910.5	911.
	Other equity (as shown in the Audited Balance Sheet) Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)					141,991.
	(Not annualised for the quarters and six months ended)a) Basic (in ₹):b) Diluted (in ₹):	18.70 18.64	10.76 10.72	36.28 36.16	20.70 20.62	42.0 41.8

Place: Mumbai

Date: November 07, 2024

1. Key numbers of Standalone Results are as under:

the same of the sa					C III IIIIIIIIIII)
Particulars	Quarter Ended 30/09/2024 (Unaudited)	Ended 30/09/2023	Ended 30/09/2024		Ended 31/03/2024
Total Revenue from operations	41,062.0	36,592.3	82,738.3	71,548.7	146,665.0
Profit / (Loss) Before Tax	9,840.5	6,960.4	20,669.7	12,725.7	27,846.9
Profit / (Loss) After Tax	8,077.6	5,486.1	16,969.4	10,255.7	23,260.9

- The above Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on November 07, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.lupin.com.

By order of the Board For Lupin Limited

Nilesh D. Gupta **Managing Director** DIN: 01734642







बीच-बचाव ने गए युवक बाइल लटा

एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली : राज पार्क इलाके में झगड़े में बीच-बचाव कराने गए एक युवक से मोबाइल लूट लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर मारपीट भी की। गुलिस ने शिकायतकर्ता जितन के बयान पर कस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पीडित द्वारा बताए गए हलिए के आधार पर आरोपियों

की शाम में जितन ने बताया कि वह हुई वारदात पांच नवंबर की शाम वह

अपने एक दोस्तं को छोड़ने सुल्तानपुरी आए थे। लौटते वक्त वह रास्ते में एक टॉयलेट में गए। आरोप है कि वहां दो युवक आपस में झगडा कर रहे थे। उन्होंने बीच-बचाव किया तो दोनों लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट की। इस दौरान एक आरोपी ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है।

ड्रग्स तस्करी के मामले में अफ्रीकी नागरिक अरेस्ट

 एनबीटी न्यूज, नई दिल्लीः वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड टीम ने एक अफ्रीकी नागरिक को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने 6 नवंबर की रात तिलंक नगर से गेरफ्तार किया है जिसकी पहचान नवाबुफ पैतिक (29) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स और स्कूटी बरामद की है। आरोपी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में दर्ज NDPS केस में

10 साल जेल में बिताने के बाद 2023 में जमानत पर साल जेल

DCP विचित्र वीर ने बताया कि एंटी-है आरोपी नारकोटिक्स स्क्वॉड के

इंस्पेक्टर अनुज यादव की टीम को एक ड्रग्स तस्कर के तिलक नगर आने की सूचना मिली। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम ने कृष्ण पार्क, तिलक नगर में ट्रैप लगाया और आरोपी नवाबुफ पैतिक को दबोच लिया। पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 60.85 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग (साइकोट्रोपिक पदार्थ) बरामद किया। आरोपी के खिलाफ तिलक नगर थाने में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने किराए के फ्लैट में भी एम्फेटामाइन ड्रग्स रखी है। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से 194.79 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

शराब बेचने के मामले में नाबालिग

एनबीटी न्युज, नई दिल्ली: साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने शराब बेचने के मामले में नाबालिंग को पकड़ा है। आरोपी नाबालिंग के पास से 117 क्वार्टर अवैध शराब और 12 बोतल बीयर बरामद की गई। जांच में सामने आया कि इलाके की रीना नाम की महिला ने नाबालिंग को शराब बेचने के लिए 500 रुपये प्रतिदिन नौकरी पर रखा हुआ था। रीना के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की है।



PARK AVENUE ColorPlus LOUIS PHILIPPE GURUGRAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hotel Pllazio) PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr. WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543 NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP



RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMI

Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini Delhi - 110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com CIN: L74899DL1984PLC019097

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Ended	Year Ended
0.09.2023	31.03.2024
	Audited
1471.95	2942.92
136.15	269.27
136.15	269.27
100.51	200.47
101.80	202.58
24.89	24.89
	1976.22
	部 市場 65 mg
4.04	8.05
4.04	8.05
	4.04

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Kumar Dua Chairman & Managing Director DIN: 00157872

Delhi, November 8, 2024

RELAXO FLITE

Bahamas

RERA REGISTRATION NO.: RC/REP/HARERA/GGM/442/174/2021/10 RC/REP/HARERA/GGM/724/456/2023/68, Website: www.haryanarera.gov.in

(Under Affordable Housing Policy 2013, Govt. of Haryana) Sector-81, Gurugram on 60 meter main road

Pay Rs. 49000/- for Registration

The Registration Amount is Refundable to Non Allotees.*

महिलाओं के लिए व सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता



DOUBLE HEIGHT SHOPS AVAILABLE FOR REGISTRATION

Loan available from leading Banks

IMPORTANT DATES

Last Date of Nov. 2024 Registration

ALLOCATION DATE 12th Nov. 2024

Floor	Shop Super Area (in Square feet)	Shop Carpet Area (in Square metre)	Price (in Rs. per Square feet) of Super Area	Registration Amount (In Rs.)	Balance 10% On allotment (In Rs.)	30% With in 30 Days (In Rs.)	20% On Super Structure (In Rs.)	20% On Apply of OC (In Rs.)	20% On offer of Possession (In Rs.)	Total Consideration Amount (In Rs.)
Ground Floor	410.8	19.08	20990	49000	813269.2	2586807.6	1724538.4	1724538.4	1724538.4	8622692
Ground Floor	411.04	19.09	- 20990	49000	813772.96	2588318.88	1725545.92	1725545.92	1725545.92	8627729.6
First Floor	344.86	16.01	16990	49000	536917.14	1757751.42	1171834.28	1171834.28	1171834.28	5859171.4
First Floor	350.02	16.25	16990	49000	545683.98	1784051.94	1189367.96	1189367.96	1189367.96	5946839.8
First Floor	351.08	16.30	16990	49000	547484.92	1789454.76	1192969.84	1192969.84	1192969.84	5964849.2
Second Floor	284.84	13.23	8990	49000	207071.16	768213.48	512142.32	512142.32	512142.32	2560711.6
Second Floor	291.12	13.52	8990	49000	212716.88	785150.64	523433.76	523433.76	523433.76	2617168.8
Second Floor	291.14	13.52	8990	49000	212734.86	785204.58	523469.72	523469.72	523469.72	2617348.6

PROJECT DETAILS

Developer: M/s GLS INFRACON PVT. LTD.

Licence No. 34 of 2020 dated: 30-10-2020 Details Check @ https://tcpharyana.gov.in/ Additional Licence No. 160 of 2022 dated: 04-10-2022 Rera No.: GGM/442/174/2021/10 Rera No.: GGM/724/456/2023/68

Location: Sector-81, Gurugram

Details Check @ https://haryanarera.gov.in/

Advantages

- Well connected from SPR, NH8 and Dwarka Express way
- Central market for approximately 30000 families currently Residing In the close proximity of the branded Hotel, School, Academies and Hospitals

To visit website scan barcode



For Online Registration www.haryanaaffordableshops.net.in Helpline No. - 9852-072-072, 9852-021-021

Disclaimer: The Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 and the rules made there have brought significant changes to the real estate sector. The Promoter/Developer is fully committed to be compliant with the provisions laid down under RERA. Promoter/ Developer urges every applicant to inspect the site where the project is proposed to be constructed and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for booking. BBA has to be executed and registered after paying 10%. The images shown here are indicative of design and for illustration purpose only. Further, the actual design may vary in fit and finish from the one displayed above. Project details/specification can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority; website https://haryanarera.gov.in.

House of Abhinandan Lodha Acquires Land Parcels for ₹3,000 cr

Spread across key cities, parcels have revenue potential of \$1 b

Kailash Babar

Kailash Babar

Mumhak Realty developes the House of Abhan sheld a total green, according to Lodin, sheld a total college to Lodin and the Lodin and

Clarivate Rents 170k sq ft Office Space in Noida

Falzanksider

New Beihi: Data intelligenee firre (Larcavier, Bened
and software, Bened
by Talaravier, Bened
command opportune all 11

command progress and the
com

HDFC Capital," Abhinan-dan Lodha, chairman, Ho-ABL, told ET.

The company is currently in the process of securing layout and other related

LEADS IN ASIA PACIFIC IN SEPTEMBER QUARTER

India Beats China in Office Space Demand

Records 17.3 m sq ft of leasing; Bengaluru & Hyderabad lead demand for Grade A space with 64% uptake, according to Colliers

Records 17-3 m Sq ft for feedsing; Bengaluruz & Sebia Khan ving riemby up to 50%, annually in Qu 2024, "said Arpt Mehrich Pacific fellis market in the 8-50 method requires consuming for interesting to Golfess for the market is severing to Golfess for the market is severing to Golfess for the market is severing to Golfess for the market in the 17-3 million square feet of king, with Bengaluru and February (1997), and the severing to Golfess for the packet of the feet of the packet of the p

Work Space

Demand in top market up 10.7%. Yell to 23.7 m sq ft in 0.3 Supply of new 25 popply of new 2

motherson

MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LIMITED

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

		Th	ree months end	ed	Half yea	ir ended	Year ended
	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited) (Unaudited)		(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	2,325.64	2,184.84	2,109.22	4,510.48	3,981.06	8,328 25
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	202.72	198.36	210.01	401.08	376.10	845.54
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	202.72	198.36	210.01	401.08	376.10	845.54
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	152.08	148.87	155.88	300.95	279.01	638.30
5	Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}	149.97	144.44	156.16	294.41	273.46	633.66
6	Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each)	442.11	442.11	442.11	442.11	442.11	442.1
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						1,234.7
-8	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)	0.34	0.34	0.35	0.68	0.63	1.4

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly final yearly financial results fied with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the LOOR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity (www.nsenda.com, www.bsenda.com and www.nsend.motherson.com).

V. C. SEHGAL

Chairman DIN No. :- 00291126

(₹ in Crore)



LUPIN LIMITED

Proud to be part of samvardhana motherson

Registered Office: Kalpataru Inspire, 3st Floor, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai 400 055. Corporate Identity Number: L24100MH1983PLC029442 Tel: (91-22) 6640 2323 • E-mail: info@lupin.com • Website: www.lupin.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Pai	rticulars	Quarter Ended 36/09/2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30/09/2023 (Unaudited)	Six Months Ended 30/09/2024 (Unaudited)	Six Months Ended 39/09/2023 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2024 (Audited)
1)	Total Revenue from operations	56,727.3	50,385.6	112,730.6	98,526.2	200,108.2
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional and/or extraordinary items)	10,548.6	6,296.7	20,478.9	11,884.6	24,222.7
3)	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	10,548.6	6,296.7	20,478.9	11,884.6	24,222.7
4)	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	8,526.3	4,896.7	16,539.4	9,419.3	19,144.8
5)	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (affer tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	9,066.4	5,128.3	16,587.4	9,321.2	19,551.8
6)	Paid up equity share capital (Face value ₹ 2/- each)	912.3	910.5	912.3	910.5	911.4
7)	Other equity (as shown in the Audited Balance Sheet)					141,991.5
8)	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (Not annualised for the quarters and six months ended) a) Basic (in ₹): b) Diuted (in ₹):	18.70 18.64	10.76 10.72	36.28 36.16	20.70 20.62	42.05 41.87

NOTES

mbers of Standalone Results are as under

mber 07, 2024

Particulars	Quarter Ended 30/09/2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30/09/2023 (Unaudited)	30/09/2024	Ended 30/09/2023	Year Ended 31/03/2024 (Audited)
Total Revenue from operations	41,062.0	36,592.3	82,738.3	71,548.7	146,665.0
Profit / (Loss) Before Tax	9,840.5	6,960.4	20,669.7	12,725.7	27,846.9
Profit / (Loss) After Tax	8,077.6	5,486.1	16,969.4	10,255.7	23,260.9

The above Results were reviewed by the Audit Comm Directors at their meeting held on November 07, 2024

The above is an extract of the detailed format of the Standations and Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www behindus con and own raisinfact com and on the Corporary's websited www.kupin.com.

By order of the Board For Lupin Limited

Nilesh D. Gupta Managing Directo DIN: 01734642



RELAXO FOOTWEARS LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

		Quarte	r Ended	Half Yes	ar Ended	Year Ended	
Pa	Particulars		30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
			Una	udited		Audited	
1.	Total Income from Operations	686.01	725.86	1439.63	1471.95	2942.92	
2.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	49.57	60.38	109.90	136.15	289.27	
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	49.57	60.38	109.90	136.15	269.27	
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	36.73	44.19	81.10	100.51	200.47	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	37.48	44.99	82.38	101.80	202.58	
ŝ,	Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89	
7.	Reserves excluding revaluation reserve		545			1976.22	
3.	Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)						
	Basic	1.48	1.78	3.26	4.04	8.05	
	Diluted	1.48	1.78	3.26	4.04	8.05	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Kumar Dua

Chairman & Managing Director DIN: 00157872





